



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1945 (श10)
(सं0 पटना 835) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2023

सं०सं०-उ०नि०-62/2022-760
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

संकल्प

28 अगस्त 2023

विषय :- उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2022-23 एवं 2023-24 के लिए उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान चयन समिति का गठन।

उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2022-23 एवं 2023-24 में प्राप्त होने वाली पाण्डुलिपियों में से अनुदान योग्य पाण्डुलिपियों के चयन तथा राशि के निर्धारण के लिए "उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान चयन समिति" का गठन निम्न रूप से किया जाता है:-

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| (i) अपर मुख्य सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) प्रो० एजाज अली अरशद,
(पूर्व कुलपति मौलाना मज़हरूल हक
अरबी व फ़ारसी विश्वविद्यालय, पटना) | — | सदस्य |
| (iii) डॉ० सफ़दर इमाम कादरी,
(एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ़ कामर्स एण्ड साइंस, पटना)– | | सदस्य |
| (iv) निदेशक, उर्दू निदेशालय,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना | — | सदस्य सचिव |
- उक्त समिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव सहित कुल-3 सदस्यों का होगा।
 - यह समिति वित्तीय वर्ष-2022-23 एवं 2023-24 के अन्तर्गत उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान की स्वीकृति हेतु चयन की अनुशंसा करेगी।
 - समिति, पाण्डुलिपियों के चयन और अनुदान की राशि पर अंतिम निर्णय लेगी।

5. "उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान चयन समिति" के गठन के प्रस्ताव में माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि जनसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी पचास प्रति उर्दू निदेशालय को उपलब्ध करायी जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अहमद महमुद,
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 835-571+50-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>